



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 21, 1976/चैत्र 1, 1898

No. 141]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 21, 1976/CHAITRA 1, 1898

इस भाग में भिन्न 755 पंक्तियाँ दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th March 1976

S.O. 219(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 21st March, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Champaran Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the districts of East Champaran and West Champaran in the State of Bihar.

[No. F. 4-69/75-AC (I)]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

क्र० 219(ख)—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक आफ (645)

इंडिया के अनुरोध पर 21 मार्च, 1976 से बिहार राज्य में चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारन और पश्चिमी चम्पारन जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एफ० 4-69/75-ए० सी० (I)]

S.O. 220(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, by which Champaran Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Motihari as the place where Champaran Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 4-69/75-AC (II)]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Addl. Secy.

क्र० प्र० 220 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के परामर्श से मोतीहारी को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एफ० 4-69/75-ए० सी० (II)]

एम० जी० बालसुब्रमण्यन्, अपर सचिव।

(Department of Banking)

New Delhi, the 21st March 1976

S.O. 221(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Champaran Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-69/75-AC (III)]

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1976

क्र० प्र० 221 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 4-69/75-ए० सी० (III)]

के० पि० ए० मेनन, संयुक्त सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA**(Department of Banking Operations and Development)***Bombay, the 21st March 1976*

S.O.222(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Champan Kshetriya Gramin Bank, Motihari.

[DBOD. No. 112/INCL/C. 102/76]

K. S. KRISHNASWAMY, Deputy Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

बम्बई, 21 मार्च, 1976

क्रो० प्रो० 222 (ए).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अन्तर्गण में भारतीय रिजर्व बैंक एनद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी ।

[डी० बी० प्रो० डी० सं० 112/आई एन सी एल/सी 102/76]

के० एस० कृष्णमूर्ती उप गवर्नर ।

